

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 जनवरी 2010—पौष 17, शक 1931

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-211.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, डीकैन, जिला-नीमच.	अध्यक्ष पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद	- 1 2 3 4 5 6 7 8 9	- एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ	देवीलाल पाटीदार (मुच्छारा) शांतिबाई पति बगदीराम सागेटिया गोवर्धनलाल नंदलाल शारदाबाई बंशीलाल मारूभाट नफीसाबाई सादिक मोहम्मद मंसूरी मोत्याबाई घीसालाल भील गोपालकृष्ण देवरामजी पाटीदार सागरबाई ओमप्रकाश भूत श्रीमती राधादेवी ताराचंद भट्ट बाबूलाल उर्फ कमल प्रकाश पिता घीसालाल जी परिहार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	10	दस	श्रीमती पुष्पलतादेवी जगदीशचन्द्र मुंदड़ा "स्वदेशी"
		पार्षद	11	ग्यारह	विष्णु उर्फ बसन्तिलाल पाटीदार
		पार्षद	12	बारह	युसूफ अली पिता एहमदअली शेख
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती विद्यादेवी भरतलाल (चौपड़)
		पार्षद	14	चौदह	विजयकुमार ख्यालीराम जी पाटीदार
		पार्षद	15	पन्द्रह	कालूराम पाटीदार पिता भंवरलाल जी पाटीदार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-212.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, जावद जिला-नीमच.	अध्यक्ष	-	-	श्यामसुन्दर-कन्हैयालालजी काबरा
		पार्षद	1	एक	सुरेशचन्द्र बालचंद खटीक सांवरिया
		पार्षद	2	दो	रमेशचन्द्र मांगीलाल ग्वाला
		पार्षद	3	तीन	शकुन्तलाबाई शशीकान्त तड़बा
		पार्षद	4	चार	रमाबाई पुरूषोत्तम राठी (जैगोपाल)
		पार्षद	5	पांच	रमेश गिर पिता मोहन गिर गोस्वामी
		पार्षद	6	छः	सत्यनारायण पिता शिवलहरी शर्मा
		पार्षद	7	सात	शौकिनलाल मोहनलाल धाकड़ (बौहरा)
		पार्षद	8	आठ	मुमतोज निसार एहमद
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती हनीफा बानो कुण्डलावाला
		पार्षद	10	दस	बंशीलाल भंवरलाल धाकड़ (बौहरा)
		पार्षद	11	ग्यारह	सम्पतबाई-राजु छुवारियां
		पार्षद	12	बारह	लीलाबाई-रमेशचंद भेरावत
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती निर्मलादेवी जानकीलाल बंग
		पार्षद	14	चौदह	ऊषादेवी महेन्द्रसिंह चौहान
		पार्षद	15	पन्द्रह	महेश कुमार पिता निर्भयराम बोहरा (धाकड़)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-213.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, जीरन, जिला-नीमच.	अध्यक्ष पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद	- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	- एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पन्द्रह	रामकरण सगवारीया मोहनीबाई शांतिलाल पिंकी देवेन्द्र वालेर (भेरू) शबाना बी-युनुस हुसैन (वकार) किरण धीरज जैन अर्जुनलाल मांगीलाल भाणेज कौशल्याबाई नन्दकिशोर नाई राजूबाई विष्णुलाल जी पालीवाल दीपक कुमार बंशीलाल शर्मा (बजरंगी) जसोदाबाई-प्रेमसुख अशोक जारेरिया मुकेशराव-यशवंतराव तावरे सुरेशचन्द्र पिता भेरूलालजी जारेरिया कमलाबाई-हरिशंकर शर्मा रामप्रसाद पिता मांगीलाल भील मुकेश कुमार कन्हैयालाल पेंवार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-214.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कुकड़ेश्वर जिला-नीमच.	अध्यक्ष पार्षद	- 1	- एक	हेमलता पति दिलीप बुंदीवाल लीलाबाई पति वद्रीचन्द मालवीय (नेरावाला)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	दिलीप पिता वरदीचन्द बुन्दीवाल
		पार्षद	3	तीन	रामकिशन पिता प्यारचन्द मौर्य
		पार्षद	4	चार	श्रीमती रमाबाई पति देवकरण वशनारिया (तम्बोली)
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती आकांक्षा (रितु) पति अजय कमठौरा
		पार्षद	6	छः	समरथलाल पिता मन्नालाल पटवा
		पार्षद	7	सात	श्रीमती ममताबाई पति मुकेश कुमार (जीगर)
		पार्षद	8	आठ	भागीरथ पिता कालूरामजी मालवीय
		पार्षद	9	नौ	सुरेश कुमार पिता डालचंद मालवीय
		पार्षद	10	दस	जगदीश पिता राधेश्याम जगोलिया
		पार्षद	11	ग्यारह	नरेन्द्र पिता बगदीराम मालवीय
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती भगवती पति कमलाशंकर मालवीय
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती आशा पति संजय आचार्य
		पार्षद	14	चौदह	अनुराधा (वालीबाई) पति तेजकुमार मालवीय
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती कलाबाई पति शांतिलाल खिंची

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-215.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, मनासा, जिला-नीमच.	अध्यक्ष	-	-	निलीमा मारू
		पार्षद	1	एक	निर्मला जगदीश राठौर
		पार्षद	2	दो	कमल नागदा
		पार्षद	3	तीन	शिवलाल कुशवाह "पहलवान"
		पार्षद	4	चार	कंचन रमेशचन्द्र कुशवाह
		पार्षद	5	पांच	मंजु लालचन्द तेली
		पार्षद	6	छः	मधु अरविन्द जैन
		पार्षद	7	सात	सुनिल कसेरा
		पार्षद	8	आठ	प्रवीण जोनवाल
		पार्षद	9	नौ	शाहिदा मोहम्मद मंसुरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	10	दस	मधुबाला देवआनंद रेकवार
		पार्षद	11	ग्यारह	मायादेवी कुशवाह
		पार्षद	12	बारह	द्रोपदी रमेशचन्द्र व्यास
		पार्षद	13	तेरह	पंकज रामचन्द्र सोनी "मामा"
		पार्षद	14	चौदह	तरूण गोपाल बसेर
		पार्षद	15	पन्द्रह	महेन्द्र रमेशचन्द्र छाबड़ा "मोन्टू"

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-216.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसारण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, रामपुरा, जिला-नीमच.	अध्यक्ष	-	-	यशवंत करेल
		पार्षद	1	एक	राकेश नारायण पंवार
		पार्षद	2	दो	सम्राट सुरेश दीक्षित
		पार्षद	3	तीन	कंचनबाई अमरलाल आर्य
		पार्षद	4	चार	प्रिती-अजय विश्वास जोशी
		पार्षद	5	पांच	लीलाबाई सुरेश राठौर
		पार्षद	6	छः	रजनी अरविन्द मरच्या
		पार्षद	7	सात	सीमा जितेन्द्र जागीरदार
		पार्षद	8	आठ	दिलीप मण्डवारिया
		पार्षद	9	नौ	राकेश शांतिलाल जैन
		पार्षद	10	दस	आबिदअली सय्येद
		पार्षद	11	ग्यारह	प्रेमलता जगदीशचन्द्र कारा
		पार्षद	12	बारह	हरीशकुमार मोहनलाल
		पार्षद	13	तेरह	मधुबाला राजेश पीपलीवाल
		पार्षद	14	चौदह	कुसुमलता जगदीशचन्द्र श्रीमाल
		पार्षद	15	पन्द्रह	हेमराज परिहार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-217.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, रतनगढ़, जिला-नीमच.	अध्यक्ष	-	-	मायादेवी-श्यामलाल सुनार
		पार्षद	1	एक	आजादशाह शकूरशाह
		पार्षद	2	दो	भंवरलाल श्रवणजी बोरीवाल
		पार्षद	3	तीन	औमप्रकाश पिता मांगीलाल भाटी
		पार्षद	4	चार	रजिशा पति जोहर अली बोहरा (राव)
		पार्षद	5	पांच	शमीमबानो पति अख्तर हुसैन मंसूरी
		पार्षद	6	छः	औमप्रकाश मूंदड़ा "पत्रकार"
		पार्षद	7	सात	लक्ष्मीदेवी श्रीसत्यनारायण नागदा
		पार्षद	8	आठ	लीलाबाई-जगदीश
		पार्षद	9	नौ	कंवरलाल पिता कन्हैयालालजी मीणा
		पार्षद	10	दस	किरणबाला पति शिवनंदन छीपा
		पार्षद	11	ग्यारह	कमलेश-बंशीलाल व्यास
		पार्षद	12	बारह	शारदा राजेश छपरीबंद
		पार्षद	13	तेरह	सीमादेवी व्यास
		पार्षद	14	चौदह	कचरूलाल भगताराम भील
		पार्षद	15	पन्द्रह	नानीबाई-भंवरलाल भील

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार.

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-218.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, सिंगोली, जिला-नीमच.	अध्यक्ष	-	-	अशरफ मेव "गुड्डू"
		पार्षद	1	एक	शाहजहां (मेहबूब) मेव
		पार्षद	2	दो	सतीश कुमार मलिक (जाट)
		पार्षद	3	तीन	सुन्दरलाल मेहता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	4	चार	कल्पना पति रविप्रकाश बिल्लु (ब्राम्हण)
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती कंकु बाई पति श्री शंभुलाल प्रजापत
		पार्षद	6	छः	श्रीमती सुनीता पति राजकुमार मेहता (जैन)
		पार्षद	7	सात	अनवर हुसैन-मजीद खां
		पार्षद	8	आठ	बसन्तीलाल जैन
		पार्षद	9	नौ	रुबिना बी पति शहजाद
		पार्षद	10	दस	पार्वती बाई-देवीलाल नाथ (जंगम)
		पार्षद	11	ग्यारह	सुरेशचन्द्र-मोहनलाल बगड़ा
		पार्षद	12	बारह	कैलाशचन्द्र-मांगीलाल सेन
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती कंकु बाई पति रखबचन्द जैन
		पार्षद	14	चौदह	रामकन्या पति भगवती लाल बारेट
		पार्षद	15	पन्द्रह	कंवरलाल खटीक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-219.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, नीमच, जिला-नीमच.	अध्यक्ष	-	-	नीता हरिश दुआ
		पार्षद	1	एक	दीपेन्द्र (पप्पू पटेल)
		पार्षद	2	दो	विजय बाफना
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती सुशीला ज्ञानमल सेठीया
		पार्षद	4	चार	महेन्द्र भटनागर श्यामसुन्दर
		पार्षद	5	पांच	जगदीश माहेश्वरी S/o श्री नानालाल
		पार्षद	6	छः	जुलेखांबी-जमील उर्फ सोल्जर
		पार्षद	7	सात	दिनेश कुमार शंकरलाल यादव
		पार्षद	8	आठ	मुकेश पोरवाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	9	नौ	श्यामलाल भेरूलाल भील
		पार्षद	10	दस	श्रीमती सुंदरबाई राधेश्याम गोयल
		पार्षद	11	ग्यारह	योगेश विनूभाई पटेल
		पार्षद	12	बारह	रमेशचन्द्र माली
		पार्षद	13	तेरह	अनिता अंटी जीजी
		पार्षद	14	चौदह	आशा देवी बोरीवाल
		पार्षद	15	पन्द्रह	बदरूनीसा अनवर हुसैन
		पार्षद	16	सोलह	नजमा मो. इकराम
		पार्षद	17	सत्रह	मुरली उर्फ मनोहर
		पार्षद	18	अठारह	इकबाल कुरेशी
		पार्षद	19	उन्नीस	रेखा नवीन जैन
		पार्षद	20	बीस	मधुबाला मुकेश सिसोदिया
		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमती रचना निमिष गर्ग
		पार्षद	22	बाईस	चंचल मनोहर चौरसिया
		पार्षद	23	तेईस	उर्मिला ओमप्रकाश काबरा
		पार्षद	24	चौबीस	लीलाबाई सीताराम ग्वाला
		पार्षद	25	पच्चीस	कमलाबाई सुरेशचंद्र सैनी
		पार्षद	26	छब्बीस	गोपाल (गोपीजी) वर्मा
		पार्षद	27	सत्ताईस	उषा अशोक अग्रवाल
		पार्षद	28	अट्ठाईस	गजेन्द्र चावला
		पार्षद	29	उन्तीस	राजेन्द्र सिंह
		पार्षद	30	तीस	अमित कुमार शर्मा
		पार्षद	31	इकतीस	राजेश अजमेरा
		पार्षद	32	बत्तीस	कल्पना संजय पंवार
		पार्षद	33	तैंतीस	सुभाषचन्द्र पुरोहित
		पार्षद	34	चौंतीस	नूरीबानो इसलाम कुरेशी
		पार्षद	35	पैंतीस	चमेलीबाई भीमसिंह सैनी
		पार्षद	36	छत्तीस	सोनू पारवानी
		पार्षद	37	सैंतीस	राजेश मण्डोरिया
		पार्षद	38	अड़तीस	जुगल किशोर अहीर
		पार्षद	39	उन्तालीस	संगीता-दिलीप मेहता (रूपजीवा)
		पार्षद	40	चालीस	बबीता-बाबू-भागचन्द

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-220.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, रायसेन, जिला-रायसेन.	अध्यक्ष	-	-	मंजू धीरेन्द्र सिंह कुशवाह
		पार्षद	1	एक	कलाबाई नाथूराम
		पार्षद	2	दो	परवीन वी/रूहल अमीन
		पार्षद	3	तीन	संतोष यादव (पन्नी)
		पार्षद	4	चार	रश्मि रमेश सिंह राघव
		पार्षद	5	पांच	इकबाल अहमद
		पार्षद	6	छः	भारतीदेवी भगवानदास लोहट
		पार्षद	7	सात	मेहमूना वसीम कुरैशी
		पार्षद	8	आठ	अशोक कुमार (नाविक)
		पार्षद	9	नौ	राम कुमार साहू
		पार्षद	10	दस	गिरधारीलाल भोई
		पार्षद	11	ग्यारह	विकास लोहट
		पार्षद	12	बारह	कल्पना-चन्दू रघुवंशी
		पार्षद	13	तेरह	अतुलसिंह गुड्डूभैया
		पार्षद	14	चौदह	नारायण सिंह कुशवाहा
		पार्षद	15	पन्द्रह	रेखा राजेश राठौर
		पार्षद	16	सोलह	अजीजा बी
		पार्षद	17	सत्रह	गीताबाई-रेवाराम
		पार्षद	18	अठारह	उपेन्द्र सिंह पवार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-221.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, गैरतगंज, जिला-रायसेन.	अध्यक्ष	-	-	जानकी रेवा शंकर पटेल
		पार्षद	1	एक	राधा मुकेश ठाकुर
		पार्षद	2	दो	सुधा बाई
		पार्षद	3	तीन	ताज बानो (गुड्डू पठान)
		पार्षद	4	चार	माजिद अब्दुल समद टोपा
		पार्षद	5	पांच	मोहम्मद आफताब मोहम्मद अहमद
		पार्षद	6	छः	रामनारायण लख्मीचंद गौर
		पार्षद	7	सात	मान सिंह (भूरा)
		पार्षद	8	आठ	शवानी बी शरीफ
		पार्षद	9	नौ	भागवती राम भरोसे
		पार्षद	10	दस	अब्दुल रहीम करीम शाह
		पार्षद	11	ग्यारह	शकीना शफीक
		पार्षद	12	बारह	भगवानदास भैयालाल धोबी
		पार्षद	13	तेरह	मदन सिंह टेगरी सिंह राजपूत
		पार्षद	14	चौदह	पोथीबाई कन्हैयालाल
		पार्षद	15	पन्द्रह	कल्पना गोविन्द सिंह तोमर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-222.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, उदयपुरा, जिला-रायसेन.	अध्यक्ष	-	-	रश्मि विश्नोई
		पार्षद	1	एक	सुनील कहार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	कैलाश राजपूत
		पार्षद	3	तीन	जयकुंअर बाई राजपूत
		पार्षद	4	चार	हनुमत सिंह
		पार्षद	5	पांच	मेघा अनिल सोनी
		पार्षद	6	छः	शिबू लाल साहू
		पार्षद	7	सात	शेख बजीर
		पार्षद	8	आठ	हरी शंकर चौकसे
		पार्षद	9	नौ	मालती बाई
		पार्षद	10	दस	हेमन्त नरवरिया
		पार्षद	11	ग्यारह	अंजली राय
		पार्षद	12	बारह	संगीता व्यास
		पार्षद	13	तेरह	जुलेखा बी
		पार्षद	14	चौदह	सुधा श्रीवास्तव
		पार्षद	15	पन्द्रह	रजनी रघुवंशी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-223.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बाड़ी, जिला-रायसेन.	अध्यक्ष	-	-	मुन्नी भगवानदास चौहान
		पार्षद	1	एक	मीना रामदीन कुशवाहा
		पार्षद	2	दो	शरीफ खां उर्फ भैया
		पार्षद	3	तीन	रूबीना शेरू खान
		पार्षद	4	चार	रूबीना बानो
		पार्षद	5	पांच	हीरालाल शिल्पी
		पार्षद	6	छः	लक्ष्मी राममोहन शर्मा
		पार्षद	7	सात	शांति फगगूलाल
		पार्षद	8	आठ	राजकुमारी रामचरण साहू
		पार्षद	9	नौ	सुधा देवेन्द्र सोनी
		पार्षद	10	दस	अमीन अली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	11	ग्यारह	बुद्धिनारायण शर्मा (गुड्डू भैया)
		पार्षद	12	बारह	रंजीत गौर
		पार्षद	13	तेरह	भगवान सिंह तोमर
		पार्षद	14	चौदह	सीमा देवेन्द्र ठाकुर
		पार्षद	15	पन्द्रह	नरेश मरकाम

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-224.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, औबेदुल्लागंज, जिला-रायसेन.	अध्यक्ष	-	-	तूफान सिंह राजपूत
		पार्षद	1	एक	रेखा मालवीय
		पार्षद	2	दो	पामेश यादव
		पार्षद	3	तीन	शरद यादव
		पार्षद	4	चार	निशा राय
		पार्षद	5	पांच	वीरेन्द्र सिंह चौहान
		पार्षद	6	छः	प्रीति नागर
		पार्षद	7	सात	तुलसीराम कुडोपा
		पार्षद	8	आठ	रितु यादव
		पार्षद	9	नौ	अनोखीलाल
		पार्षद	10	दस	सना आमिर ममनून
		पार्षद	11	ग्यारह	सुनीता चौकसे
		पार्षद	12	बारह	आरती यादव
		पार्षद	13	तेरह	आशीष दीक्षित
		पार्षद	14	चौदह	सुनीता अनिल जयसवाल
		पार्षद	15	पन्द्रह	माधव चैनसिंह

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-225.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बरेली, जिला-रायसेन.	अध्यक्ष	-	-	श्री सुरेश पाठक
		पार्षद	1	एक	मनीषा राजेन्द्र राजपूत
		पार्षद	2	दो	पुष्पा कमलेश राजपूत
		पार्षद	3	तीन	सै. मसूद अली
		पार्षद	4	चार	अरविंद कुमार धाकड़
		पार्षद	5	पांच	लक्ष्मीबाई फूलसिंह घाकड़
		पार्षद	6	छः	शशि योगेन्द्र तिवारी
		पार्षद	7	सात	शारदा शैलेन्द्र पटेल
		पार्षद	8	आठ	डॉ. नवीन सक्सेना
		पार्षद	9	नौ	राजेन्द्र कुमार जैन (पप्पू)
		पार्षद	10	दस	राजकुमारी सोनी
		पार्षद	11	ग्यारह	जरीना बी-हमीद कुरैशी
		पार्षद	12	बारह	नितीन राय महेशकुमार
		पार्षद	13	तेरह	मंशाराम नाथूराम
		पार्षद	14	चौदह	राखी चौधरी
		पार्षद	15	पन्द्रह	विजय राजौरि

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-226.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, बेगमगंज, जिला-रायसेन.	अध्यक्ष	-	-	शिखर चंद जैन
		पार्षद	1	एक	अकरम हुसैन
		पार्षद	2	दो	कस्तूरी बाई छोटेलाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	3	तीन	समीना बी मो. अजहर
		पार्षद	4	चार	समीना बी मेहफूज भाई
		पार्षद	5	पांच	हेमन्त विश्वकर्मा
		पार्षद	6	छः	मंजू प्रमोद तामिया
		पार्षद	7	सात	शारिक शाह
		पार्षद	8	आठ	रमजान अली
		पार्षद	9	नौ	गायत्री शोभाराम साहू
		पार्षद	10	दस	सरला बाई संतोष सिंह घोषी
		पार्षद	11	ग्यारह	पप्पू भाई (राजेन्द्र सिंह)
		पार्षद	12	बारह	भाव सिंह पंथी
		पार्षद	13	तेरह	विमला विष्णु शर्मा
		पार्षद	14	चौदह	मुन्ना अली दाना
		पार्षद	15	पन्द्रह	नजमा बी सगीर अली
		पार्षद	16	सोलह	तबस्सुम बी
		पार्षद	17	सत्रह	बृजेश यादव
		पार्षद	18	अठारह	संजय गौर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-227.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, सिलवानी, जिला-रायसेन.	अध्यक्ष	-	-	मेनका श्यामलाल साहू
		पार्षद	1	एक	भगवानदास
		पार्षद	2	दो	संजय कुमार तिवारी ठेकेदार
		पार्षद	3	तीन	गंगाराम सिंहोते
		पार्षद	4	चार	जावेद खां
		पार्षद	5	पांच	काजी सलीम उद्दीन
		पार्षद	6	छः	जौहराबी-सऊदवेग
		पार्षद	7	सात	राकेश कुमार आ. चरण सिंह
		पार्षद	8	आठ	नूरजहाँ मुजाहिद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	9	नौ	शुभ्रा-मनीष सिंघई
		पार्षद	10	दस	तवस्सुम बेगम
		पार्षद	11	ग्यारह	अनीता जैन
		पार्षद	12	बारह	जयश्री जैन जयभैया
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती कमलेश जैन
		पार्षद	14	चौदह	जितेन्द्र सोनी
		पार्षद	15	पन्द्रह	प्रेमरानी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-228.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, सुल्तानपुर, जिला-रायसेन.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती अरूणा कमलेश
		पार्षद	1	एक	श्री राजेश गौर
		पार्षद	2	दो	श्रीमती ममता गौर
		पार्षद	3	तीन	श्री ओमकार प्रसाद
		पार्षद	4	चार	श्रीमती पिंकी कन्हैयालाल रैकवार
		पार्षद	5	पांच	श्री सुखराम धूते
		पार्षद	6	छः	श्रीमती असमा आरिफ
		पार्षद	7	सात	श्री मुन्ने मामू
		पार्षद	8	आठ	फरीदा शब्बीर
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती लक्ष्मीबाई चरणलाल
		पार्षद	10	दस	श्री मंशाराम मैथिल
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री मो. जहीर
		पार्षद	12	बारह	राबिया आजाद
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती रामकली बाई
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती लक्ष्मी हेमराज मीणा
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री विजयराम

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-229.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, अमरपाटन, जिला-सतना.	अध्यक्ष	-	-	राकेश कुमार ताम्रकार (राजू)
		पार्षद	1	एक	माया सोनी
		पार्षद	2	दो	शंकर लाल ताम्रकार
		पार्षद	3	तीन	संतोष कुमार
		पार्षद	4	चार	अशोक कुमार ननकू खटिक
		पार्षद	5	पांच	धर्मेन्द्र बंसल
		पार्षद	6	छः	मालती साकेत
		पार्षद	7	सात	सिया बाई
		पार्षद	8	आठ	चन्दा साकेत
		पार्षद	9	नौ	आशा चतुर्वेदी
		पार्षद	10	दस	लल्लू लाल सोनी
		पार्षद	11	ग्यारह	बसंत लाल कोरी
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती सुशीला साहू
		पार्षद	13	तेरह	रैहान रजबी एडवोकेट
		पार्षद	14	चौदह	अशोक जैन (सल्लू)
		पार्षद	15	पन्द्रह	सीमा सिंह

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-230.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, चित्रकूट, जिला-सतना.	अध्यक्ष	-	-	श्री नीलांशु चतुर्वेदी
		पार्षद	1	एक	सीमा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	गणेश प्रसाद सेन
		पार्षद	3	तीन	शान्ती देवी साहू
		पार्षद	4	चार	राम बदन
		पार्षद	5	पांच	संती
		पार्षद	6	छः	श्यामलाल सोनकर
		पार्षद	7	सात	तुसमा
		पार्षद	8	आठ	बाबी
		पार्षद	9	नौ	रवि माला सिंह
		पार्षद	10	दस	शोभा देवी कुशवाहा
		पार्षद	11	ग्यारह	राम मिलन कुशवाहा
		पार्षद	12	बारह	चन्दू कोल
		पार्षद	13	तेरह	उर्मिला प्रजापति
		पार्षद	14	चौदह	चन्दनिया यादव
		पार्षद	15	पन्द्रह	छोटे लाल पाण्डेय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-231.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, जैतवारा, जिला-सतना.	अध्यक्ष	-	-	रंजना देवी
		पार्षद	1	एक	राजीव प्रसाद विश्वकर्मा
		पार्षद	2	दो	चन्द्रभूषण तिवारी
		पार्षद	3	तीन	मीराबाई
		पार्षद	4	चार	मेवालाल वर्मा
		पार्षद	5	पांच	राजेश कुमार दाहिया
		पार्षद	6	छः	कमला प्रसाद
		पार्षद	7	सात	संतोष कुमार गौतम
		पार्षद	8	आठ	मधु बंसल
		पार्षद	9	नौ	दीपा अग्रवाल
		पार्षद	10	दस	सरोज

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	11	ग्यारह	उर्मिला त्रिपाठी
		पार्षद	12	बारह	सुन्दरिया
		पार्षद	13	तेरह	निर्मला सिंह
		पार्षद	14	चौदह	राजेन्द्र कुमार दाहिया
		पार्षद	15	पन्द्रह	रेखा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-232.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कोठी, जिला-सतना.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती रामदुलारी गुप्ता
		पार्षद	1	एक	श्रीमती बूटी कोल
		पार्षद	2	दो	दिनेश गर्ग
		पार्षद	3	तीन	सीताराम चौधरी
		पार्षद	4	चार	मो. साहिद (गुड्डा)
		पार्षद	5	पांच	सुनीता सोनी (रामनाथ सोनी)
		पार्षद	6	छः	मंजूलता श्रीवास्तव
		पार्षद	7	सात	संजू विश्वकर्मा
		पार्षद	8	आठ	विकास सोनी (गुड्डू)
		पार्षद	9	नौ	देवी दयाल
		पार्षद	10	दस	श्रीमती सरिता सिंह
		पार्षद	11	ग्यारह	राजेश सिंह (राजू)
		पार्षद	12	बारह	चुनकी (दिदा)
		पार्षद	13	तेरह	मथुरा प्रसाद कोल
		पार्षद	14	चौदह	सरिता गुप्ता
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती बेबी कोरी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-233.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/ पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद् मैहर, जिला-सतना.	अध्यक्ष पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद	- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	- एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पन्द्रह सोलह सत्रह अठारह	ललिता सूर्य प्रकाश चौरसिया पवन कोल श्रीमती संतोष चौरसिया चूडामणि बढोलिया निर्मला चौरसिया अब्दुल नईम इस्लाम अहमद (बब्लू) गीता सिंह सुरेन्द्र चौरसिया मुन्ना लाल (रमेश) कलाबाई कन्छेदी प्रजापति सुषमा सिंह मो. आबिद सुकीर्ति बड़गइयां मीना अग्रवाल (रजू) हसीना बारिक भाई प्रकाश मखीजा श्रीमती ज्योति यादव श्री महेश दरियानी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-234.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, नागौद जिला-सतना	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती कामाक्षा कुमारी
		पार्षद	1	एक	बीरन प्रसाद चौधरी
		पार्षद	2	दो	अशोका ध्रुव सिंह
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती प्रतीक्षा सिंह (नीतू)
		पार्षद	4	चार	श्यामा सिंह
		पार्षद	5	पांच	ओम प्रकाश पाण्डेय
		पार्षद	6	छः	कुसुम सिंह
		पार्षद	7	सात	कुसुम गौतम
		पार्षद	8	आठ	राहुल सोनी
		पार्षद	9	नौ	मुस्तकीन
		पार्षद	10	दस	वंश रूप तिवारी
		पार्षद	11	ग्यारह	मधु शर्मा
		पार्षद	12	बारह	मो. शरीफ
		पार्षद	13	तेरह	मो. इस्लाम
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती निर्मला खटिक
		पार्षद	15	पन्द्रह	कलुईया चौधरी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-235.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, रामपुर बाघेलान जिला-सतना	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती माधुरी त्रिपाठी
		पार्षद	1	एक	बुटान यादव
		पार्षद	2	दो	श्रीमती माया देवी सिंह
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती भूरी कोल
		पार्षद	4	चार	लीला साकेत
		पार्षद	5	पांच	लक्ष्मी नारायण पिता श्री स्वामीदीन मिश्रा
		पार्षद	6	छः	सुन्दर लाल कोल
		पार्षद	7	सात	श्रीमती विमला सिंह पति रामायण सिंह
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती कुसुम देवी पति रामावतार अवधिया
		पार्षद	9	नौ	“सत्यमन सिंह”
		पार्षद	10	दस	रामखेलावन विश्वकर्मा
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती आशा कोल
		पार्षद	12	बारह	रामनाथ साकेत
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी
		पार्षद	14	चौदह	कमलेश सोनी “लाला”
		पार्षद	15	पन्द्रह	सत्येन्द्र सिंह “दादू”

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-236.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, उचेहरा जिला-सतना	अध्यक्ष	-	-	हरीश कुमार ताम्रकार (हरीश भईया)
		पार्षद	1	एक	श्रीमती तारा गुप्ता पत्नी स्व. अशोक कुमार गुप्ता
		पार्षद	2	दो	श्री खेलावन दास
		पार्षद	3	तीन	श्री रवि कुमार तनय सोहन लाल
		पार्षद	4	चार	श्री बालमुकुन्द पाण्डे तनय रामकृष्ण पाण्डे
		पार्षद	5	पांच	अंजना ताम्रकार
		पार्षद	6	छः	लवली ताम्रकार w/o बलराम ताम्रकार
		पार्षद	7	सात	अनीता चौरसिया
		पार्षद	8	आठ	श्यामकली w/o राजू चर्मकार
		पार्षद	9	नौ	संतोष कुमार शर्मा तनय स्वामीदीन शर्मा
		पार्षद	10	दस	श्रीमती राजकुमार सेन w/o डॉ. राजेश सेन
		पार्षद	11	ग्यारह	रमेश भाई
		पार्षद	12	बारह	श्यामलाल कोल तनय मोतीलाल कोल
		पार्षद	13	तेरह	बदरून निशा पति मुबारक अली (भूरा)
		पार्षद	14	चौदह	प्रेमलता बेल्दार पति रामावतार
पार्षद	15	पन्द्रह	राजेन्द्र प्रसाद (रंगी)		

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-237.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बिरसिंहपुर जिला-सतना	अध्यक्ष	-	-	समीन पति मजीद खां
		पार्षद	1	एक	श्रीमती सविता कोल पति पुस्सू कोल
		पार्षद	2	दो	फूलचन्द्र कुम्हार
		पार्षद	3	तीन	रूपा पाण्डेय
		पार्षद	4	चार	विनीता पाठक पत्नी युगुल प्रसाद पाठक
		पार्षद	5	पांच	रसीदन बेगम
		पार्षद	6	छः	दिनेश प्रसाद ताम्रकार
		पार्षद	7	सात	बन्दना सोनी
		पार्षद	8	आठ	सुनीता गुप्ता
		पार्षद	9	नौ	मजीद खान पिता अब्दुल जमील
		पार्षद	10	दस	ललवा ढीमर पिता मंगल ढीमर
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती राजकली वर्मा पति हरीकांत वर्मा
		पार्षद	12	बारह	संखी देवी गौतम
		पार्षद	13	तेरह	मइयादीन सेन
		पार्षद	14	चौदह	फौज खां
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती इन्द्रनिया साकेत पति श्री राजसजीवन साकेत

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-238.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/ पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बरेला जिला-जबलपुर	अध्यक्ष	-	-	राजेन्द्र प्रसाद साहू
		पार्षद	1	एक	अजय कुमार गर्ग
		पार्षद	2	दो	प्रमिला-दिनेश सिंह
		पार्षद	3	तीन	बृजबिहारी सोनी
		पार्षद	4	चार	रामरानी/भगवानदास
		पार्षद	5	पांच	मुन्नालाल झारिया
		पार्षद	6	छः	सुनीता साहू
		पार्षद	7	सात	मालती/प्रकाश चक्रवर्ती
		पार्षद	8	आठ	सुलोचना/मदन वंशकार
		पार्षद	9	नौ	पंडित ओमकार शर्मा
		पार्षद	10	दस	शोभा विश्वकर्मा
		पार्षद	11	ग्यारह	जीतेन्द्र कुमार चौकसे
		पार्षद	12	बारह	आशा बाई सोनकर
		पार्षद	13	तेरह	प्रकाश सिंह
		पार्षद	14	चौदह	सतीश साहू
		पार्षद	15	पन्द्रह	राकेश कुमार उपाध्याय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-239.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कटंगी जिला-जबलपुर	अध्यक्ष	-	-	श्री मोहन तिवारी
		पार्षद	1	एक	श्री सुजान सिंह
		पार्षद	2	दो	श्रीमती पार्वती यादव
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती उमा बाई
		पार्षद	4	चार	श्रीमती कृष्णाबाई पति प्रकाश
		पार्षद	5	पांच	श्री कमलेश साहू
		पार्षद	6	छः	श्री ब्रजेन्द्र झारिया
		पार्षद	7	सात	श्रीमती नूरजहां पति शेख यासीन
		पार्षद	8	आठ	श्री जहीर अहमद
		पार्षद	9	नौ	श्री हनीफ खान
		पार्षद	10	दस	श्रीमती मीना पति रविशंकर सोनी
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती नस्सौ वी पति मुहम्मद
		पार्षद	12	बारह	श्री मक्सूद
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती सपना पति प्रकाश चक्रवर्ती
		पार्षद	14	चौदह	डब्लु काछी पिता मूलचंद
पार्षद	15	पन्द्रह	श्री मुकेश कुमार बल्द गरीबदास विश्वकर्मा		

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-240.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, मझौली जिला-जबलपुर	अध्यक्ष	-	-	शिप्रा राजेन्द्र चौरसिया
		पार्षद	1	एक	श्रीमती आशमीन बानो
		पार्षद	2	दो	सुरेन्द्र कुमार कोष्टा
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती सुषमा पति दिनेश कोष्टा
		पार्षद	4	चार	अमित कुमार राय
		पार्षद	5	पांच	मुन्नालाल चौधरी
		पार्षद	6	छः	मंगोबाई शेषकुमार
		पार्षद	7	सात	सूर्यकांत साहू
		पार्षद	8	आठ	मोहनी नेमा
		पार्षद	9	नौ	पुष्पा पति भोलेराम सोनी
		पार्षद	10	दस	अजय कुमार साहू
		पार्षद	11	ग्यारह	शिवकुमारी सुनील (गामा)
		पार्षद	12	बारह	तेजीलाल पहलवान
		पार्षद	13	तेरह	कोमलप्रसाद गौड़
		पार्षद	14	चौदह	दुर्गा महेश रैकवार
		पार्षद	15	पन्द्रह	प्रेमलाल राजू साहू

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-241.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, पनागर जिला-जबलपुर.	अध्यक्ष	-	-	जितेन्द्र सिंह ठाकुर
		पार्षद	1	एक	वंदना रविचरण पाण्डे
		पार्षद	2	दो	अनारी कोरी
		पार्षद	3	तीन	आशा केशलाल (भगतजी)
		पार्षद	4	चार	आफदा बी (आबदा बी)
		पार्षद	5	पांच	शमीना
		पार्षद	6	छः	मुन्नीबाई/बद्री कोरी
		पार्षद	7	सात	रमा तिवारी
		पार्षद	8	आठ	बालकिशन (किशन भैया)
		पार्षद	9	नौ	कृष्ण कुमार "करिया"
		पार्षद	10	दस	प्रमोद पटेल
		पार्षद	11	ग्यारह	ममता राय
		पार्षद	12	बारह	सुखलाल गोटिया
		पार्षद	13	तेरह	अरविन्द तिवारी
		पार्षद	14	चौदह	बेड़ीलाल उर्फ टिक्कू कुशवाहा
		पार्षद	15	पन्द्रह	चन्द्र प्रकाश (बब्बा)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-242.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, पाटन, जिला-जबलपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्री कृष्ण शेखर सिंह
		पार्षद	1	एक	रेशम सिंह पति देवीसिंह
		पार्षद	2	दो	गनपत सिंह
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती मणीबाई
		पार्षद	4	चार	सरोज बाई चमार पति वीर
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती संध्या बाई
		पार्षद	6	छः	प्रशांत कुमार जैन
		पार्षद	7	सात	श्रीमती पुष्पाबाई
		पार्षद	8	आठ	जुगल किशोर सिंह
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती अनीता पाठक
		पार्षद	10	दस	वीरेन्द्र कुमार
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती उर्मिला दुबे
		पार्षद	12	बारह	शेख अजीम ठेकेदार
		पार्षद	13	तेरह	राजेश कुमार साहू (रजू साहू)
		पार्षद	14	चौदह	महेन्द्र सिंह
		पार्षद	15	पन्द्रह	बलराम सिंह

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-243.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, शहपुरा, जिला-जबलपुर.	अध्यक्ष	-	-	सूर्य प्रकाश राय (नन्ना)
		पार्षद	1	एक	शंकर लाल
		पार्षद	2	दो	कमलरानी
		पार्षद	3	तीन	रिहाना बी/शेख हलीम
		पार्षद	4	चार	दिनेश कोरी
		पार्षद	5	पांच	चिन्जूलाल
		पार्षद	6	छः	प्रवीण कुमार (पिंकू)
		पार्षद	7	सात	गायत्री सिंह
		पार्षद	8	आठ	रुकमन बाई
		पार्षद	9	नौ	रामप्यारी पटैल
		पार्षद	10	दस	गजेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू भैया
		पार्षद	11	ग्यारह	लता गौर
		पार्षद	12	बारह	अशोक कुमार साहू
		पार्षद	13	तेरह	संजय जैन (भाई साब)
		पार्षद	14	चौदह	पुष्पेन्द्र सिंह
		पार्षद	15	पन्द्रह	रजनी/परसराम

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. एफ-65-08-09-तीन-244.-- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, सिहोरा, जिला-जबलपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्री दिलीप दुबे (बड़े)
		पार्षद	1	एक	श्री राजभान चमार
		पार्षद	2	दो	श्रीमती अनीता (बबला) राजभर
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती नीता w/o सुनील कुमार जायसवाल
		पार्षद	4	चार	श्री अमित खत्री (मीतू)
		पार्षद	5	पांच	श्री गौस भाई आजाद
		पार्षद	6	छः	श्रीमती रंजना सुशील दुबे
		पार्षद	7	सात	सतीष यादव
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती ज्योति
		पार्षद	9	नौ	श्री संजय कुमार
		पार्षद	10	दस	श्री राजकुमार चावला (राजू चावला)
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती बेबी दिनेश (गुड्डू) विश्वकर्मा
		पार्षद	12	बारह	श्री राजेश कुमार पटैल
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती कृष्ण सरावगी
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती संगीता कोल
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री अंकुश नायक
		पार्षद	16	सौलह	श्रीमती विनीता कोरी
		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती प्रेमलता उम्मेद सिंह ठाकुर
		पार्षद	18	अठारह	श्री सुनील तिवारी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-245.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, अकोड़ा जिला-भिण्ड	अध्यक्ष	-	-	बाबू पुत्र छोटेलाल
		पार्षद	1	एक	रंजीत पुत्र विक्रमसिंह
		पार्षद	2	दो	भमर सिंह पुत्र सेवाराम
		पार्षद	3	तीन	सुनीता पत्नी रामदत्त
		पार्षद	4	चार	बलवीर सिंह पुत्र भूपसिंह
		पार्षद	5	पांच	रामकली पत्नी आशाराम
		पार्षद	6	छः	उर्मिला पत्नी रामकेश
		पार्षद	7	सात	जनक नन्दीनी पत्नी रन्धीर सिंह
		पार्षद	8	आठ	सुदीप पुत्र जन्देल सिंह
		पार्षद	9	नौ	हुकुमसिंह पुत्र साधूसिंह
		पार्षद	10	दस	दोलता बाई पत्नी सूबेदार
		पार्षद	11	ग्यारह	राजकुमार पुत्र शंकर स्वरूप
		पार्षद	12	बारह	तुलसीराम पुत्र कोके
		पार्षद	13	तेरह	कुशम पत्नी अंगद
		पार्षद	14	चौदह	महेश पुत्र जगतसिंह
		पार्षद	15	पन्द्रह	कमला पत्नी अवधेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-246.--मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, आलमपुर जिला-भिण्ड	अध्यक्ष	-	-	रामकुमार त्रिपाठी ठेकेदार
		पार्षद	1	एक	मलखान सिंह कौरव
		पार्षद	2	दो	श्रीमती अखिलेशी देवी अहिरवार.
		पार्षद	3	तीन	प्रेमनारायण राठौर
		पार्षद	4	चार	राजेश कुमार लहारिया
		पार्षद	5	पांच	महेन्द्र कुमार अहिरवार (कल्ली)
		पार्षद	6	छः	फूलादेवी पाण्डेय
		पार्षद	7	सात	मजीत खां राईन
		पार्षद	8	आठ	विजयसिंह राठौर
		पार्षद	9	नौ	ऊमादेवी सोनी
		पार्षद	10	दस	रूखसाना हबीब बेग मिर्जा
		पार्षद	11	ग्यारह	राजीव कुमार कौरव
		पार्षद	12	बारह	शशि देवी खटीक
		पार्षद	13	तेरह	लल्लन देवी बघेल
		पार्षद	14	चौदह	फाईलाल बघेल
		पार्षद	15	पन्द्रह	कला कुशवाह

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-247.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद , भिण्ड, जिला-भिण्ड.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती सावित्री शम्भूदयाल शाक्य
		पार्षद	1	एक	श्रीमती मिथलेश विजय मिश्रा
		पार्षद	2	दो	श्रीमती ओस्मता हरवीर यादव
		पार्षद	3	तीन	श्री अजय सिंह
		पार्षद	4	चार	श्रीमती सुनीता सुनील कौशल
		पार्षद	5	पांच	श्री मनमोहन (बाबा सोनी)
		पार्षद	6	छः	श्री महेन्द्रसिंह नरवरिया
		पार्षद	7	सात	श्री सुरेन्द्रसिंह भदौरिया (मुन्ना)
		पार्षद	8	आठ	श्री अरूण वकील
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती अनुराधा कुशवाह
		पार्षद	10	दस	श्री ऊदल शाक्य
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती राजेश्वरी भिलवारे
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती अलका अजीतसिंह
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती आशा रतनचन्द्र जैन
		पार्षद	14	चौदह	श्री जयप्रकाश शर्मा (जे. पी.)
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती अन्जू उर्फ अन्जुला, दिवाकर दीक्षित "जुगन".
		पार्षद	16	सोलह	श्रीमती रजिया मुजीम डिश वाले
		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती संध्या पत्नी योगेश दीक्षित उर्फ रिकू.
		पार्षद	18	अठारह	श्रीमती उर्मिला देवी जैन
		पार्षद	19	उन्नीस	श्री अनीश कुरेशी
		पार्षद	20	बीस	श्रीमती विनोद कुमारी श्रीवास
		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमती दीपा दिलीप सिंह
		पार्षद	22	बाईस	श्रीमती राखी-योगेन्द्र सिंह (लला)
		पार्षद	23	तेईस	श्री कल्याण सिंह पुत्र दरियाव सिंह
		पार्षद	24	चौबीस	डॉ. भगवान सिंह
		पार्षद	25	पच्चीस	श्री जसराम सिंह राठौर (रिटा. फौजी)
		पार्षद	26	छब्बीस	श्रीमती सुषमा पत्नी श्री मनोज खटीक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	27	सत्ताईस	श्री श्याम श्रीवास्तव
		पार्षद	28	अट्ठाईस	श्रीमती अनुराधा सतेन्द्र
		पार्षद	29	उन्तीस	श्रीमती वीना ओमप्रकाश अग्रवाल बाबूजी
		पार्षद	30	तीस	श्री निशार वेग (मधु)
		पार्षद	31	इकतीस	श्री अजीत सिंह
		पार्षद	32	बत्तीस	श्री प्रबल प्रताप सिंह जादौन पुत्र नखत सिंह जादौन.
		पार्षद	33	तैंतीस	श्री प्रदीप कुमार भारोली
		पार्षद	34	चौंतीस	श्री नागेन्द्र सिंह भदौरिया
		पार्षद	35	पैंतीस	श्रीमती फूलश्री बघेल
		पार्षद	36	छत्तीस	श्रीमती मिथलेश सुरेश (डॉ. राजू)
		पार्षद	37	सैंतीस	श्रीमती राधा नीलेश तोमर
		पार्षद	38	अढ़तीस	श्री अविलाख सिंह (फौजी)
		पार्षद	39	उन्चालिस	श्री मुकेश गर्ग

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-248.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, दबोह जिला-भिण्ड	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती सुशीला घनश्याम
		पार्षद	1	एक	रामबेटी
		पार्षद	2	दो	श्री हरविलास
		पार्षद	3	तीन	कल्पना तेहरिया
		पार्षद	4	चार	श्री श्यामविहारी (श्यामू)
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती रमा शिवराज
		पार्षद	6	छः	श्री माखन (कक्कू)
		पार्षद	7	सात	कमला देवी
		पार्षद	8	आठ	श्री राममूर्ती गुप्ता
		पार्षद	9	नौ	कुशमा देवी
		पार्षद	10	दस	श्री गोविन्दास

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री विक्रमसिंह (दददा)
		पार्षद	12	बारह	रामप्यारी
		पार्षद	13	तेरह	श्री अरविन्द गुप्ता (छोटू)
		पार्षद	14	चौदह	श्री आनन्द कुमार गोस्वामी
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री अंजनी कुमार कुरचारियां

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-249.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद , गोहद, जिला-भिण्ड.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती गुड्डी बाई माहौर
		पार्षद	1	एक	श्रीमती शीला बाई माहौर
		पार्षद	2	दो	श्रीमती शोभा पत्नी कमल बाथम
		पार्षद	3	तीन	श्री राजेश उर्फ करू
		पार्षद	4	चार	श्रीमती बिठन बाई
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती बिटोलीबाई-राजेन्द्रसिंह गुर्जर
		पार्षद	6	छः	श्री मोहम्मद रफीक (छिट्टू)
		पार्षद	7	सात	श्री मुश्ताक खां
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी अशरफ दददा
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती सन्नो खातून
		पार्षद	10	दस	श्रीमती अंगूरी देवी-जगदीशसिंह (बाबूजी)
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री सुनीलकुमार उर्फ सुन्नी
		पार्षद	12	बारह	श्री ओमप्रकाश कुशवाह
		पार्षद	13	तेरह	श्री विनोदसिंह यादव
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती मधु जैन-राजेन्द्र जैन
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री सुनीतकुमार भट्टेले
पार्षद	16	सोलह	श्री अलबेल जाटव पुत्र रामलाल		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती शीला बाई-भारतसिंह जाटव
		पार्षद	18	अठारह	श्री चरनसिंह उर्फ (चेंचू)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-250.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, गोरमी जिला-भिण्ड	अध्यक्ष	-	-	सुनीता निर्मल आर्य
		पार्षद	1	एक	रामदास
		पार्षद	2	दो	श्यामलता बलवीर सिंह
		पार्षद	3	तीन	शकुन्तला राधेश्याम धानुक
		पार्षद	4	चार	मुरारी सिंह यादव
		पार्षद	5	पांच	रामदत्त तिवारी
		पार्षद	6	छः	श्रीमती रेखा देवी
		पार्षद	7	सात	राजेश सिंह उर्फ पटेल
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती मंजू देवी थापक
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती बैकुण्ठी खटीक
		पार्षद	10	दस	सुमन मुकेश यादव
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती अंगूरी यादव
		पार्षद	12	बारह	राजकुमार जैन (बड़े)
		पार्षद	13	तेरह	राजकुमार विनोद सिंह
		पार्षद	14	चौदह	प्रदीप यादव
		पार्षद	15	पन्द्रह	कलावती प्रजापति

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-251.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, लहार जिला-भिण्ड	अध्यक्ष	-	-	सुशीला डॉ. विनोद तिवारी
		पार्षद	1	एक	साधना चौरसिया
		पार्षद	2	दो	श्रीमती लक्ष्मी पत्नी शिवकुमार गुप्ता
		पार्षद	3	तीन	रफीक खां
		पार्षद	4	चार	उर्मिला पत्नी रामशंकर
		पार्षद	5	पांच	शान्ती गुप्ता
		पार्षद	6	छः	गन्दान अली उर्फ मन्नान अली काजी
		पार्षद	7	सात	जगदीश कुशवाह
		पार्षद	8	आठ	विनोद कुमार दीक्षित
		पार्षद	9	नौ	ओमप्रकाश कुशवाह पुत्र श्री गंगादीन कुशवाह
		पार्षद	10	दस	श्यामवती सेंगर
		पार्षद	11	ग्यारह	कमलेश कुमार कुशवाह पुत्र श्री राधेलाल कुशवाह
		पार्षद	12	बारह	सुगन्धी देवी
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती मंजूलता राजावत
		पार्षद	14	चौदह	भगवानदास दौहरे
		पार्षद	15	पन्द्रह	रामदास पुत्र रट्टीलाल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-252.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, मेहगांव जिला-भिण्ड	अध्यक्ष	-	-	कमलेश चन्द्र जैन उर्फ टिल्लू
		पार्षद	1	एक	श्रीमती नीलम राठौर
		पार्षद	2	दो	बसन्ती बाई कृपाराम श्रीवास
		पार्षद	3	तीन	शिवलाल वाल्मीक (शिबू)
		पार्षद	4	चार	विजयरानी राठौर
		पार्षद	5	पांच	मन्जू सिद्धर धन्नु
		पार्षद	6	छः	अर्चना मिश्रा
		पार्षद	7	सात	रामशेष शर्मा
		पार्षद	8	आठ	रमेश ओझा
		पार्षद	9	नौ	सनतकुमार जैन s/o श्री वीरसेन जैन
		पार्षद	10	दस	उदयसिंह गुर्जर
		पार्षद	11	ग्यारह	सुनील कुमार जैन
		पार्षद	12	बारह	अशोक सिंह राठौर
		पार्षद	13	तेरह	फरीदा वेगम
		पार्षद	14	चौदह	सुरेन्द्र कुमार बघेल
		पार्षद	15	पन्द्रह	चन्द्रकली हरलाल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-253.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, मिहोना जिला-भिण्ड	अध्यक्ष	-	-	श्री संतोष बौहरे
		पार्षद	1	एक	रविन्द्र सिंह (रामू)
		पार्षद	2	दो	श्रीमती कमलेश देवी
		पार्षद	3	तीन	श्री जेनेन्द्र सिंह
		पार्षद	4	चार	श्रीमती मल्ला बघेल
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती कलावती चौधरी
		पार्षद	6	छः	श्री वीरेन्द्र सिंह यादव
		पार्षद	7	सात	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता (सोनु)
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती राजेन्द्री पत्नी मानसिंह
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती कमलेश पत्नी महेन्द्र कुमार
		पार्षद	10	दस	बृजेश कुमार तिवारी पुत्र श्री नारायणदास.
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री दशरथ बरसैना .
		पार्षद	12	बारह	श्री अमर सिंह कुशवाह पुत्र श्री बैजनाथ कुशवाह.
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती शांति देवी पत्नी भारत (धंजू)
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती श्यामा पाठक पत्नी बृहबिहारी.
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री रघुवीर खटीक पुत्र श्री असफ़ीलाल.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-254.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, मौ जिला-भिण्ड	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती शांतीदेवी-मर्जादसिंह यादव (धोरी)
		पार्षद	1	एक	श्रीमती नीरूदेवी उर्फ निशा
		पार्षद	2	दो	श्री जसवंतसिंह पिता रामजीतसिंह
		पार्षद	3	तीन	श्री प्रदीपकुमार पिता जगदीशसिंह यादव
		पार्षद	4	चार	श्रीमती रामवती पति विद्याराम
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती ऊषा मिश्रा पति हरिनिवास मिश्रा
		पार्षद	6	छः	श्री वीरेन्द्रसिंह पिता रामचरन
		पार्षद	7	सात	श्री शांतिलाल जैन
		पार्षद	8	आठ	श्री सुरेश सिंह पिता बुद्धे सिंह
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती उसना पति सिकन्दर
		पार्षद	10	दस	श्रीमती विमला देवी पत्नी तोताराम
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती श्यामा देवी पति कमलेश कुमार
		पार्षद	12	बारह	श्री चतुरी पिता पूरनसिंह
		पार्षद	13	तेरह	श्री खलील पिता अल्लादीन
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती गुड्डी देवी यादव
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री राजवीर सिंह पिता उम्मेदसिंह

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-255.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, फूफ, जिला-भिण्ड	अध्यक्ष	-	-	मंजेशी दीक्षित
		पार्षद	1	एक	श्रीमती रामकली
		पार्षद	2	दो	संतोषी शर्मा
		पार्षद	3	तीन	भीमसेन बघेल
		पार्षद	4	चार	आशा श्रीवास
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती कपूरी देवी
		पार्षद	6	छः	श्री मनीष दैपुरिया
		पार्षद	7	सात	भूरा देवी
		पार्षद	8	आठ	भोगीराम
		पार्षद	9	नौ	रामगोपाल शर्मा
		पार्षद	10	दस	ऊषा योगेन्द्र सिंह
		पार्षद	11	ग्यारह	भारत सिंह बघेल
		पार्षद	12	बारह	श्री राकेश सिंह
		पार्षद	13	तेरह	श्री लाल राम ओझा
		पार्षद	14	चौदह	रेनु अनिल
		पार्षद	15	पन्द्रह	अनिल कुमार गोयल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-256.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/ पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बरही, जिला-कटनी.	अध्यक्ष	-	-	बालाप्रसाद वर्मा उर्फ लालाजी
		पार्षद	1	एक	सुरेश सोनी (पंडा)
		पार्षद	2	दो	जयप्रकाश सिंह मरावी
		पार्षद	3	तीन	मिट्टूलाल उर्फ भूरा चौधरी
		पार्षद	4	चार	सुनीता महतेल
		पार्षद	5	पांच	उत्तम शर्मा
		पार्षद	6	छः	शारदा देवी कचेर
		पार्षद	7	सात	कमल सोनी
		पार्षद	8	आठ	ऊषा पीयूष अग्रवाल
		पार्षद	9	नौ	कामता प्रसाद ताम्रकार
		पार्षद	10	दस	रामशरण वर्मा (डिस वाले)
		पार्षद	11	ग्यारह	ममता रामकृपाल कोल
		पार्षद	12	बारह	केशर बाई नामदेव (भूरी)
		पार्षद	13	तेरह	अनुसुईया गुप्ता
		पार्षद	14	चौदह	श्रवण कुमार सोनी (सरमन)
		पार्षद	15	पन्द्रह	सकूर खां

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./--

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. -65-08-09-तीन-257.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/ पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कैमोर, जिला-कटनी.	अध्यक्ष	-	-	नाजिमा इकबाल अहमद सिदीकी
		पार्षद	1	एक	श्रीमती माया संतोष रजक
		पार्षद	2	दो	द्रोपदी हरी मास्टर
		पार्षद	3	तीन	रविशंकर दुबे
		पार्षद	4	चार	श्रीमती मिथिलेश जमुना सेन
		पार्षद	5	पांच	एस. महेन्द्र सोनी
		पार्षद	6	छः	गुलाब सिंह आत्मज जीवनसिंह
		पार्षद	7	सात	शान्ति देवी उर्फ शान्ति बाई पति राजकुमार कोल
		पार्षद	8	आठ	सुरेश परौहा
		पार्षद	9	नौ	अजय त्रिपाठी
		पार्षद	10	दस	मो. हुसैन उर्फ कुक्कू
		पार्षद	11	ग्यारह	अनिल मौर्य
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती लक्ष्मी रमेश मदाड़ी
		पार्षद	13	तेरह	अनीता (अनीता सेन)
		पार्षद	14	चौदह	रफीक खान (बबलू)
		पार्षद	15	पन्द्रह	वीरेंद्र कुमार बैगा (विक्की)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार.

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-258.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसारण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)	
1	नगर पंचायत, विजयराघवगढ़, जिला-कटनी.	अध्यक्ष पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद	- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	- एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पन्द्रह	श्रीमती आशा ताम्रकार (बड्डा ताम्रकार) अरूण कुमार दुबे एडवोकेट हेतराम पिता राजकुमार हरीओम बर्मन आशा W/o मुन्नालाल चमार गुड्डू शर्मा उर्फ अनिल शर्मा सुनीता पति अनिल ममता पति रामकुमार रमा सोनी पति संतोष कुमार सोनी आशा राकेश साहू संतोष कुमार पिता भगवत प्रसाद झल्लाराम पिता बाबूलाल मंजूलता बाबूलाल अख्तरी बेगम रिखीराम चौधरी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-259.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसारण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)	
1	नगर पंचायत, ब्योहारी, जिला-शहडोल.	अध्यक्ष पार्षद	- 1	- एक	श्री उज्ज्वल केशरी ललिता बाई कोल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	मइका कोल
		पार्षद	3	तीन	चौद बी बी
		पार्षद	4	चार	मुन्ना बंसोर
		पार्षद	5	पांच	शांति शुक्ला (बड़या)
		पार्षद	6	छः	रामसोरिथ पटेल
		पार्षद	7	सात	दुर्गा चौधरी
		पार्षद	8	आठ	कुसुम ताम्रकार
		पार्षद	9	नौ	सुशीला गुप्ता
		पार्षद	10	दस	गीता कोल
		पार्षद	11	ग्यारह	राजेश गुप्ता (खन्ना)
		पार्षद	12	बारह	दीप नारायण साहू
		पार्षद	13	तेरह	संतोष कुमार सोनी (लल्लू)
		पार्षद	14	चौदह	हरीश कुमार गुप्ता
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्यामकली श्यामजी नामदेव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-260.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, खांडू जिला-शहडोल.	अध्यक्ष	-	-	सुशीला सिंह
		पार्षद	1	एक	कल्लन उर्फ तेजराज सिंह
		पार्षद	2	दो	सुन्दरलाल साकेत
		पार्षद	3	तीन	प्राची
		पार्षद	4	चार	निजामुद्दीन
		पार्षद	5	पांच	प्रेमवती गोंड
		पार्षद	6	छः	राकेश चतुर्वेदी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	7	सात	भैयालाल
		पार्षद	8	आठ	प्रियंका सिंह
		पार्षद	9	नौ	सुधा तिवारी
		पार्षद	10	दस	नारेन्द्र सिंह बघेल (बब्लू)
		पार्षद	11	ग्यारह	केशव प्रसाद सोधिया
		पार्षद	12	बारह	चंपा बाई कुशवाहा
		पार्षद	13	तेरह	ललिता केवट
		पार्षद	14	चौदह	सरोज
		पार्षद	15	पन्द्रह	आदित्य प्रताप सिंह

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-261.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, देपालपुर जिला-इन्दौर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती सुमित्रा रमेश चंद्र यादव
		पार्षद	1	एक	सावित्री-भगवती
		पार्षद	2	दो	रवि मूलचन्द चौरसिया
		पार्षद	3	तीन	कमलाबाई रघुनाथ राठौर
		पार्षद	4	चार	अनुसुईया बद्रीलाल धाकड़
		पार्षद	5	पांच	विमल यादव
		पार्षद	6	छः	जमनालाल रामसिंह चौहान
		पार्षद	7	सात	चन्द्रजीत यादव (पप्पु)
		पार्षद	8	आठ	कैलाश मेंडा
		पार्षद	9	नौ	दीनदयाल चौबे
		पार्षद	10	दस	रेशमबाई हेमसिंह ठाकुर
		पार्षद	11	ग्यारह	मनीबाई गोस्वामी
		पार्षद	12	बारह	संध्या नंदकिशोर यादव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	13	तेरह	शहनाज/ आजम खान
		पार्षद	14	चौदह	नूरजहाँ आजम खॉन
		पार्षद	15	पन्द्रह	जितेन्द्र ठाकुर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-262.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	केवल पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, हातोद, जिला-इन्दौर.	अध्यक्ष	-	-	श्री चन्द्रशेखर छापोला
		पार्षद	1	एक	मोतीलाल जाटवा
		पार्षद	2	दो	देवेन्द्र छाड़िया
		पार्षद	3	तीन	राजूबाई पंवार
		पार्षद	4	चार	कांतिलाल डाबी
		पार्षद	5	पांच	उमादेवी जादौन
		पार्षद	6	छः	दशरथ
		पार्षद	7	सात	शारदा बाई राठौर
		पार्षद	8	आठ	यशवंतसिंह राठौर
		पार्षद	9	नौ	भावना प्रजापति
		पार्षद	10	दस	शरदचन्द्र गौर
		पार्षद	11	ग्यारह	रामकन्याबाई
		पार्षद	12	बारह	कैलाशबाई पंवार
		पार्षद	13	तेरह	रामूबाई चौधरी
		पार्षद	14	चौदह	भागूबाई
		पार्षद	15	पन्द्रह	शेख कयामुददीन (पहलवान)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-263.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में (4)	शब्दों में (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
1	नगर पंचायत, बेटमा, जिला-इन्दौर.	अध्यक्ष	-	-	नारायण कुवर पति चितरंजन सिंह लाल दरबार.
		पार्षद	1	एक	तेजराम-कनीराम
		पार्षद	2	दो	पंकज चौधरी
		पार्षद	3	तीन	पुष्पा मनोहर इंगले
		पार्षद	4	चार	शिवनारायण खुशाल शिवपहलवान
		पार्षद	5	पांच	परवीन बी फिरोज
		पार्षद	6	छः	सरोजबाई राजु
		पार्षद	7	सात	हीरासिंह चौहान हीरा
		पार्षद	8	आठ	कृष्णा सतीश अग्रवाल
		पार्षद	9	नौ	सुभाष ब्रदीलाल जाजू
		पार्षद	10	दस	अंकित खत्री (सोनू)
		पार्षद	11	ग्यारह	ज्योति पति विजयसिंह
		पार्षद	12	बारह	पृथ्वीराजसिंह नारायणसिंह बब्बू दरबार
		पार्षद	13	तेरह	रंजनी विक्रम भारती
		पार्षद	14	चौदह	जयश्री दुलीचन्द्र
		पार्षद	15	पन्द्रह	दयावबाई रघुवीर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-264.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में (4)	शब्दों में (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
1	नगर पंचायत, गौतमपुरा, जिला-इन्दौर.	अध्यक्ष पार्षद	- 1	- एक	विशाल राठी सत्यनारायण खट्ट्या

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	मनोरमा-मोहनदास बैरागी
		पार्षद	3	तीन	आशा-रमेश पटेल
		पार्षद	4	चार	सुनिता-राजेन्द्र प्रजापत
		पार्षद	5	पांच	विनोद गुर्जर
		पार्षद	6	छः	सुधा-राजेन्द्र हजारी
		पार्षद	7	सात	विरेन्द्र-डाबी
		पार्षद	8	आठ	शकुन्तला-दिनेश राजोरिया
		पार्षद	9	नौ	पार्वती गुड्डू पहलवान
		पार्षद	10	दस	सुनिल जोशी
		पार्षद	11	ग्यारह	अन्नपूर्णा कुशवाह
		पार्षद	12	बारह	श्यामुबाई हिन्दुसिंह
		पार्षद	13	तेरह	जयन्ती सेठ
		पार्षद	14	चौदह	धनसिंह चौहान
		पार्षद	15	पन्द्रह	रामचन्द्र राठौर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-265.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	केवल पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, महूगाँव, जिला-इन्दौर.	अध्यक्ष	-	-	श्री हेमराज पिता सुन्दरलाल अहीर
		पार्षद	1	एक	श्रीमती बेबी विश्वकर्मा
		पार्षद	2	दो	श्री शांतिलाल लिबाजी पाटीदार
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती संगीता सुभाष चौहान
		पार्षद	4	चार	श्रीमती सरिता सोलन्की
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती मनीषा जगदीश
		पार्षद	6	छः	श्री नवीन रघुनाथ प्रसाद तिवारी
		पार्षद	7	सात	श्रीमती अंजना निरंजन
		पार्षद	8	आठ	श्री विक्रमसिंह जैस
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती अंजू आनन्द वर्मा
		पार्षद	10	दस	श्रीमती अंजना विमल दुबे
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री सूर्य प्रकाश राधेश्याम पंवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	12	बारह	श्री ओमप्रकाश देवीलाल
		पार्षद	13	तेरह	श्री योगेन्द्र वर्मा
		पार्षद	14	चौदह	भूरीबाई जितेन्द्र
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री भरत रमेशचन्द्र (रिंकू)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-266.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, मानपुर, जिला-इन्दौर.	अध्यक्ष	-	-	सीमा कमलसिंह पटेल
		पार्षद	1	एक	अरुण कुमरावत
		पार्षद	2	दो	रमेश गब्बुलाल वर्मा
		पार्षद	3	तीन	सुमन-मिश्रीलाल श्रीवास
		पार्षद	4	चार	राधाबाई डावर
		पार्षद	5	पांच	प्रमिला मनोहर सोनी
		पार्षद	6	छः	हीरू दादा
		पार्षद	7	सात	मंगली बाई दसाना
		पार्षद	8	आठ	सुनिल शर्मा
		पार्षद	9	नौ	नरेन्द्र खण्डेलवाल
		पार्षद	10	दस	मनमोहन सिंह गुणावत
		पार्षद	11	ग्यारह	सत्यनारायण सोलंकी
		पार्षद	12	बारह	किरणदेवी अनिल कुमार
		पार्षद	13	तेरह	रेखा गोस्वामी
		पार्षद	14	चौदह	चंदाबाई अशोक मीणा
		पार्षद	15	पन्द्रह	संतोष बाई मूलचन्द जाट

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-267.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, राऊ, जिला-इन्दौर.	अध्यक्ष	-	-	वर्षा दिलीप सुले
		पार्षद	1	एक	बब्बू चौधरी
		पार्षद	2	दो	आशाराम अम्बाराम मालवीय
		पार्षद	3	तीन	राजेश रतनसिंह पेंवार
		पार्षद	4	चार	सुरेश पांचाल
		पार्षद	5	पांच	राजेश सरदार डावर
		पार्षद	6	छः	फरीदी बी फारुख चन्देरी
		पार्षद	7	सात	रंजू विनोद ओरावाला
		पार्षद	8	आठ	संतोष बट्टीलाल चौधरी
		पार्षद	9	नौ	मोनिता शैलेश जोशी
		पार्षद	10	दस	राजेश शिवनारायण मण्डले
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती रंजना यादव
		पार्षद	12	बारह	रजनी (मधु बक्षी)
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती रुकमा इन्दरमल
		पार्षद	14	चौदह	मधू बाई शिवशंकर
		पार्षद	15	पन्द्रह	अर्चना सुनिल यादव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-268.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, सांवेर, जिला-इन्दौर.	अध्यक्ष	-	-	श्री गजानन्द करड़वाल
		पार्षद	1	एक	रायसिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	सजनबाई पर्वतसिंह नायर
		पार्षद	3	तीन	छोगालाल उस्ताद
		पार्षद	4	चार	भय्यू खान
		पार्षद	5	पांच	सईदा बी सलीम
		पार्षद	6	छः	सुशीलाबाई भगवान गौड़
		पार्षद	7	सात	शाफीखां मिर्चीवाले
		पार्षद	8	आठ	सुशीला नन्दलाल मकवाना
		पार्षद	9	नौ	अंगुरवाला सुनील गोयल
		पार्षद	10	दस	बबलू गौड़
		पार्षद	11	ग्यारह	रामकन्याबाई पति गब्बूसिंह
		पार्षद	12	बारह	प्रहलाद यादव
		पार्षद	13	तेरह	संतोष मांदनिया
		पार्षद	14	चौदह	धनकुंवर रेणा
		पार्षद	15	पन्द्रह	संजूबाई सोहन चौहान

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-269.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, भानपुरा, जिला-मंदसौर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती किरण भाना
		पार्षद	1	एक	श्रीमती मोहनी नागेश्वर कलवाड़िया
		पार्षद	2	दो	संतोष-धनसुख पाटीदार
		पार्षद	3	तीन	इन्द्रा बम्बोरिया
		पार्षद	4	चार	मुकेश कुमार-रामगोपाल रत्नावत
		पार्षद	5	पांच	मिसकिन जाहिद हुसैन अंसारी
		पार्षद	6	छः	यशोदा विरमचंद सतपहाड़िया
		पार्षद	7	सात	श्रीमती सलमाबाई सलीम मोहम्मद कुरैशी
		पार्षद	8	आठ	श्री बालाराम औंकारलाल बागड़ी
		पार्षद	9	नौ	श्री कैवरलाल भँवरलाल भील
		पार्षद	10	दस	श्रीमती सुशीला लालचंद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री नवल कुमार-विमल कुमार चौरडिया
		पार्षद	12	बारह	श्री सुभाष कुमार तिवारी
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती कृष्णाबाई रमेशचंद्र रुद्रवाल
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती कृष्णा गोर्धन माली
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री जगदीश रामगोपाल भाना

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-270.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसार, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, गरोठ, जिला-मंदसौर.	अध्यक्ष	-	-	राजेश मदनलाल चौधरी (अभिनव वाला)
		पार्षद	1	एक	मंजू-जगदीशचन्द्र ग्वाला
		पार्षद	2	दो	दिनेश कुमार रतनलाल
		पार्षद	3	तीन	रेखा विनोदकुमार
		पार्षद	4	चार	प्रकाश लक्ष्मीनारायण खाती
		पार्षद	5	पांच	महेश रतनलाल जी खाती
		पार्षद	6	छः	गायत्री पंकज चौधरी
		पार्षद	7	सात	राजेन्द्र पुरुषोत्तम क्षोत्रिय
		पार्षद	8	आठ	संतोष सतीश गुजराती
		पार्षद	9	नौ	देवीलाल नारायण बागरी
		पार्षद	10	दस	अंजना राजेन्द्र चौधरी
		पार्षद	11	ग्यारह	प्रदीप कुमार सुरेश कुमार
		पार्षद	12	बारह	यशोदा रामगोपाल परिहार
		पार्षद	13	तेरह	कैलाशीबाई रामगोपाल ननेरा
		पार्षद	14	चौदह	लक्ष्मीनारायण देवीलाल भूत
		पार्षद	15	पन्द्रह	संगीता ललीत चंदेल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-271.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)	
1	नगर पंचायत, मल्हारगढ़, जिला-मंदसौर.	अध्यक्ष पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद	- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	- एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पन्द्रह	श्रीमती सन्नो-हाफिज भाई मेव आबीदखां मेव-मेहताबखां मेव जायदाबी-फारूक गोपाल-भवरलाल सोनावत बसन्ती बाई-ओमप्रकाश प्रजापति रूकया बी-जाकिर हुसैन बेहल्लिम हेमन्तकुमार भंवरलाल गुप्ता अनिल कुमार हीरालाल पोरवाल श्यामलाल S/o भंवरलाल तंवर श्रीमती सलमा-फारूख पठान श्रीमती निशा-आशिष चौहान श्री विमल मोदी श्रीमती लक्ष्मी-हिरालाल पाठक श्री मोहनसेन-मांगीलाल कछावा श्रीमती जुबेदा बी-लतीफ खां मंसूरी श्रीमती गंगाबाई-शान्तिलाल मण्डवारिया

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-272.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)	
1	नगर पंचायत, नगरी, जिला-मंदसौर.	अध्यक्ष पार्षद	- 1	- एक	श्रीमती गीताबाई पति रामप्रताप वाकतरिया संगीता पति रामचन्द्र धाकड़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	श्री अशोक कुमार पिता रामचन्द्र अटोलिया
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती पार्वतीबाई पति रामेश्वर धाकड़
		पार्षद	4	चार	श्रीमती कौशल्याबाई पति सालीगराम धाकड़
		पार्षद	5	पांच	ईश्वरलाल पिता रामेश्वर खारोल
		पार्षद	6	छः	श्रीमती सरिता पति बसंतीलाल गांजी
		पार्षद	7	सात	श्रीमती कलावती पति कचरू धाकड़
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती श्रीकुंवर पति मांगीलाल जोशी
		पार्षद	9	नौ	शहनाज बी पति सलीम मंसूरी
		पार्षद	10	दस	श्रीमती अनिता पति अनिल कुमार जैन
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री बालेश्वर पिता लक्ष्मीनारायण जी राठोर
		पार्षद	12	बारह	श्री श्रीराम पिता रामप्रसाद धाकड़
		पार्षद	13	तेरह	श्री रूघनाथ पिता गणेशराम
		पार्षद	14	चौदह	श्री रामविलास पिता सीताराम बग्गड़
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री भागीरथ पिता कारूलाल जी भील

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-273.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, नारायणगढ़, जिला-मंदसौर.	अध्यक्ष	-	-	कमला मानव पाटीदार
		पार्षद	1	एक	महेन्द्र सिंह मोहनसिंह पंवार
		पार्षद	2	दो	वन्दना सुनील इलोरिया
		पार्षद	3	तीन	दिलीप पाटीदार
		पार्षद	4	चार	देवकुर्वर-शैतानसिंह चोहान
		पार्षद	5	पांच	प्रमोद कुमार श्रीमल मुन्दडा
		पार्षद	6	छः	जितेन्द्र जाट
		पार्षद	7	सात	श्रीमती शीला उमेश शर्मा
		पार्षद	8	आठ	पारसबाई
		पार्षद	9	नौ	सन्तोष विमल विरवाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	10	दस	रेखा विमल जैन
		पार्षद	11	ग्यारह	मुकेश-मोडीराम भागरिया
		पार्षद	12	बारह	लाली दिलीप कुमार
		पार्षद	13	तेरह	गिरिश कुमार बवेरिया
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती पिंकी कमलेश भगत
		पार्षद	15	पन्द्रह	जसवन्त परिहार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-274.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, पिपलियामंडी, जिला-मंदसौर.	अध्यक्ष	-	-	प्रवीणा कैलाश गुप्ता
		पार्षद	1	एक	सुनिता-प्रकाशचंद्र गुर्जर
		पार्षद	2	दो	मनोहर पालीवाल
		पार्षद	3	तीन	मुक्ति-मनोहर काबरा
		पार्षद	4	चार	डॉ. अश्विन यति (बबलु भय्या)
		पार्षद	5	पांच	मांगीलाल वरदीचन्द्र
		पार्षद	6	छः	ममता राजेन्द्र माली
		पार्षद	7	सात	तुलसीबाई पति नरसिंहलाल
		पार्षद	8	आठ	सुरजबाई लखारा
		पार्षद	9	नौ	बलराम राधेश्याम सौलंकी
		पार्षद	10	दस	श्रीमती गायत्री डा. अरूण मूँदड़ा
		पार्षद	11	ग्यारह	चेताबाई पति लीलाराम
		पार्षद	12	बारह	अशोक कोहली
		पार्षद	13	तेरह	कोमल-अनिल बौराना (गोटू)
		पार्षद	14	चौदह	हरि प्रसाद गेहलोत
		पार्षद	15	पन्द्रह	दिलीप गोयल (दीप)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-275.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में (4)	शब्दों में (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
1	नगर पंचायत, शामगढ़, जिला-मंदसौर.	अध्यक्ष पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद	- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	- एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पन्द्रह	श्रीमती संतोष रमेशचन्द्र काला कारीबाई मनोहर राठौर दयाराम पाण्डव गोपाल बालाराम जोशी श्यामा अर्जुन सोनी उमा खुराना सुरेश रामचन्द्र नरभेपुरिया विशालकुमार गोवर्धनलाल जायसवाल शांति सतीशकुमार पाटीदार सुनिता हरिनारायण फरक्या अनिल खन्ना "नीलू" फिरोज लोहार राधा गोपालदास नन्दवानी तौशीब अन्जूम प्रदीप यादव कोशल्याबाई गोपाल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-276.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में (4)	शब्दों में (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
1	नगर पंचायत, सीतामऊ, जिला-मंदसौर.	अध्यक्ष पार्षद	- 1	- एक	किशोर "बापु" लाभचन्द्र माली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	मेना सुनील मेहता
		पार्षद	3	तीन	सुमित्रा पूरणदास बैरागी
		पार्षद	4	चार	दिलीपगिरी गोस्वामी
		पार्षद	5	पांच	संजय चौहान
		पार्षद	6	छः	अर्जुन कल्याणे
		पार्षद	7	सात	दिपक पिता गोपाल जी राठौर
		पार्षद	8	आठ	सलमाबी-शकील
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती सुमित्रा कुमावत
		पार्षद	10	दस	ईशान गोड (अन्तु)
		पार्षद	11	ग्यारह	गीता-महेश भार्गव
		पार्षद	12	बारह	मधुबाला-राजेन्द्र कुमार देतरिया
		पार्षद	13	तेरह	अनिता दीपक केरवा
		पार्षद	14	चौदह	कन्हैयालाल शिवदासिया
		पार्षद	15	पन्द्रह	आशाबाई विष्णु राठौर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-277.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कसरावद, जिला-खरगौन.	अध्यक्ष	-	-	शोभा बाबुलाल जायसवाल
		पार्षद	1	एक	कंचनबाई मनोहर खेड़े
		पार्षद	2	दो	अनवरी बानो बख्तावर खान
		पार्षद	3	तीन	पुनिबाई सड्डु वर्मा
		पार्षद	4	चार	रियाना तेजु खान
		पार्षद	5	पांच	छोटेलाल गलसिंह
		पार्षद	6	छः	पप्पू सोनी
		पार्षद	7	सात	भारत रेवाराम पटेल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	8	आठ	निजामुद्दीन फखरुद्दीन
		पार्षद	9	नौ	सुनिता सुनिल पाटीदार
		पार्षद	10	दस	तस्लीम जुम्मा खान
		पार्षद	11	ग्यारह	पारूबाई पंढरी कुशवाह
		पार्षद	12	बारह	ओमप्रकाश भीलुराम शुक्ला
		पार्षद	13	तेरह	मदरजान गुलाम हुसैन
		पार्षद	14	चौदह	कमलेश पाटीदार "बांगा"
		पार्षद	15	पन्द्रह	निर्मल अमीचंद एक्कल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-278.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, सनावद, जिला-खरगौन.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती मीना गजेन्द्र शर्मा
		पार्षद	1	एक	नरेन्द्र राजाराम राठौर
		पार्षद	2	दो	श्रीमती आराधनासिंह चौहान
		पार्षद	3	तीन	शहनाज बी सलीम पहलवान
		पार्षद	4	चार	इब्राहीम पठान
		पार्षद	5	पांच	साहिदा बी शेख मुनव्वर
		पार्षद	6	छः	श्रीमती अनुपमा दिलीप परिहार
		पार्षद	7	सात	श्री रमेश धन्नालाल गौड
		पार्षद	8	आठ	शेख मुजफ्फर (मुजा भाई टेलर)
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती सीमा गजेन्द्र पटेल
		पार्षद	10	दस	भागीरथ तुलसीराम प्रजापती
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती स्वाती वारिश जैन (मोनू)
		पार्षद	12	बारह	सुरेश सेन
		पार्षद	13	तेरह	हेमलता विष्णु ठेकेदार
		पार्षद	14	चौदह	राहुल बैसवार
		पार्षद	15	पन्द्रह	घनश्याम (भावेश) राधोराम भमोरिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	16	सोलह	श्रीमती सीमा जैन
		पार्षद	17	सत्रह	शिप्रासिंह पियुषसिंह
		पार्षद	18	अठारह	विजयसिंह अनारसिंह चौहान

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-279.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	केवल पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, बड़वाह, जिला-खरगौन.	अध्यक्ष	-	-	रमेशचंद पाटीदार
		पार्षद	1	एक	सरीता देवी पति मेहन्द्र सिंह
		पार्षद	2	दो	श्रीमती राजकुमारी पति मोहन जायसवाल
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती स्मिता पति हेमन्त (बबलू) कायरे
		पार्षद	4	चार	नरसिंह पिता करसन सुरागे
		पार्षद	5	पांच	विकास पिता मांगीलाल
		पार्षद	6	छः	राजेश लखमीचंद सराफ
		पार्षद	7	सात	श्रीमती कुसुम गंगाराम गड़गोती
		पार्षद	8	आठ	गणेश पटेल
		पार्षद	9	नौ	संजय सागरमल सांड
		पार्षद	10	दस	विष्णु वर्मा
		पार्षद	11	ग्यारह	गिरजा रघुनाथ जाट
		पार्षद	12	बारह	लीलाबाई रमेशचन्द्र (तुमाबाई)
		पार्षद	13	तेरह	अंतिम बाबूलाल अग्रवाल
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती वन्दना विरेन्द्र जैन
		पार्षद	15	पन्द्रह	कृष्णपालसिंह "जिम्मी"
		पार्षद	16	सोलह	मुमताज शाबिर खां
		पार्षद	17	सत्रह	शहजाद खॉ सरदार खॉ
		पार्षद	18	अठारह	सुरेन्द्र पंड्या

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.